CIN: L52110DL1986PLC025118
Registered Office: GI-48, G.T. Karnal Road, Industrial Area, Delhi-110033 E-mail: julinvestors@jushinindia.com | Website: www.jpmgroup.co.in Tel: 91(124)-4623400 | Fax: +91(124)-4623403

nendations of the Committee of Independent Directors (IDC) of Jay Ushin Limited ("Target Company" or "TC" or the "Company") on the Open Offer to the public share holders of the Target Company under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares & Takeovers) Regulations, 2011 by Minebea Mitsumi Inc. ("Acquirer") together with U-shin Ltd., as the person acting in concert with the Acquirer ("PAC")

Mr. Balrai Bhanot, Chairmar

the Acquirer or PACs at present

Corporate Advisors Limited.

Mr. Ashok Panjwani

of the Target Company

3. Mr. Arvind Kumar Mitta

4. Mr. Ciby Cyriac James

July 28, 2020

Name of the Target Company (TC) Jay Ushin Limited

Open offer is being made by the Acquirers and PACs for the acquisition of upto 1,004,770 (One million four thousand several parts of the control of the cont hundred and seventy only) equity shares at a price of INR 589.94 (Indian rupees five hundred and eightynine and ninety four pais only) per equity share to the public shareholders, representin 26% of the voting share capital of the Target Company

None of the Members of the IDC hold any equity shares or

other securities in the Target Company and have any relationship with the Target Company.

None of the IDC members have traded in the Equity

Shares of Target Company since their appointmen

None of the IDC members has any relationship with

The IDC members believe that the Offer is fair and reasonable

i) Public Announcement (PA) May 20, 2020, the Detailed Public Statement (DPS) dated May 27,2020, Draft Letter of Offer (DLOF)

ii) Fairness Opinion Report on the Open Offer issued by Navigar

The IDC Members are of the opinion that the Offer Price of INR 589.94 offered by the Acquirer is in accordance with the relevant regulations prescribed in the Takeover Code and appear to be

justified. However, the shareholders are advised to independent evaluate the Open Offer and take an informed decision befor participating in the Open Offer.

Navigant Corporate Advisors Limited (SEBI Regd Category

Merchant Banker) 423, Bonanza, A Wing, Sahar Plaza Complé J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai-400 059

Justdial

CIN: L74140MH1993PLC150054

Registered Office: Palm Court, Building-M, 501/B, 5th Floor, New Link Road,

Besides Goregaon Sports Complex, Malad (West), Mumbai 400 064.

Tel. No: +91 22 2888 4060 Fax: +91 22 2889 3789

E-mail: investors@justdial.com Website: www.justdial.com

FOR THE ATTENTION OF THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF JUST DIAL LIMITED

("COMPANY") IN RELATION TO THE OFFER TO BUY-BACK OF UP TO 31,42,857 FULLY

PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10 EACH ("EQUITY SHARES"), FROM ALL THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY AS ON JULY 3, 2020, FRIDA)

(THE "RECORD DATE"). ON A PROPORTIONATE BASIS, BY WAY OF A TENDER OFFER

ROUTE THROUGH THE STOCK EXCHANGE MECHANISM FOR CASH AT A PRICE OF RS.

700/- PER EQUITY SHARE FOR AN AGGREGATE AMOUNT OF UP TO RS. 220,00,00,000

("BUY-BACK") UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK

The Public Announcement dated June 24, 2020 in relation to the Buy-back was published or

June 25, 2020 in Financial Express, an English national daily, Jansatta, a Hindi national daily

and Navshakti, a Marathi language daily (Marathi being the regional language of

Maharashtra, where our Registered Office is located). The Buy-back will open on Tuesday

August 4, 2020 and will close on Monday, August 17, 2020 and the last date and time for receipt of the completed Tender Form is Wednesday, August 19, 2020 by 5.00 p.m. The letter

of offer for the Buy-back and the tender forms (along with Form SH-4), dated July 28, 2020

(the "Letter of Offer") has been dispatched on July 28, 2020 to all the Eliqible Share holders

as on July 3, 2020 (the "Record Date"), as received from the Depositories, through (a)

electronic mail to Eliqible Share holders whose e-mail IDs are registered in the records of the

depository participants as on the Record Date, and (b) physical mode to Eligible

Shareholders whose e-mail IDs are not registered with the Depositories, at their registered address. The Letter of Offer and this dispatch advertisement shall also be made available or

the website of the Securities and Exchange Board of India at www.sebi.gov.in and on the

websites of the Indian Stock Exchanges where the Company is listed at www.bseindia.com.

www.nseindia.com and www.msei.in, the website of the Company at www.justdial.com, the

website of the Registrar to the Buy-Back at https://karisma.kfintech.com and the website of the

Manager to the Buy-back at www.nomuraholdings.com/company/group/asia/india/ index.html. In case of any query, the Eligible Shareholders may also contact the Registrar to the Buyback, KFin Technologies Private Limited on Tel: +91 40 6716 2222; Fax: +91 40 2343 1551

Email: justdial.buyback20@kfintech.com. The documents for inspection for the Buy-back

shall be available on the website of the Company on the link https://www.justdial.com/

Capitalized terms used but not defined in this advertisement shall have the meaning

OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("BUY-BACK REGULATIONS")

dated June 4, 2020 Letter of Offer (LOF) dated July 20, 2020

Offer and take informed decision in their best interest

wever, the shareholders should independently evaluate the

Acquirer : Minebea Mitsumi Inc. PAC : U-shin Ltd. Name(s)of the acquirer and PAC with the acquire Ambit Capital Pvt. Ltd. Name of the Manager to the offer Ambit House, 449, Senapati Bapat Marg Lower Parel, Mumbai - 400 013

Members of the Committee of Independent Directors (Please indicate the chairperson ofthe Committee separately IDC Members are Independent and Non-Executive Director

IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares vned, any other contract / elationship), if any

Trading in the Equity shares other securities of the TC by IDC Members

IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract relationship), if any Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members

Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable Summary of reasons for recommendation (IDC may also

invite attention to any other place e.g. company's website, where its detailed recommendations along with written advice of the seen by the shareholder)

4. Any other matter(s) to be

highlighted To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in o accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the TC under the Takeover Code.

For and on behalf of IDC of Jav Ushin Limite.

Date: 28th July 2020

Note: These recommendations are being made in compliance with the SEBI Act and SEBI Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations 2011, but without prejudice to the parallel/ on-going litigation and arbitration proceedings against the M/s Ushin Ltd. and M/s Minebea Mitsumi Inc. (the acquirer) and ful reservation of any rights and remedies available to M/s Jay Ushin Ltd. (the target company) under the applicable laws and regulations

जुलाई में कई क्षेत्रों में कम बारिश

685 जिलों में से 32 प्रतिशत में 28 जुलाई तक बारिश सामान्य से कम

नई दिल्ली, 28 जुलाई

दक्षिण पश्चिम मॉनसून जून की मजबूत शुरुआत के बाद जुलाई में देश के कुछ इलाकों में सुस्त पड़ गया। इसकी वजह से पहले महीने में हुआ पुरा लाभ खत्म होता नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग के हाल के आंकड़ों से यह जानकारी मिलती है।

अब तक (28 जुलाई) भारत में करीब 425.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो महज सामान्य है। जून के अंत तक देश में सामान्य से 18 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई थी, जो पिछले कुछ वर्षों की सबसे बेहतरीन बारिश थी।

उसके बाद पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में बेहतरीन बारिश हुई है, जिससे उन इलाकों में बाढ़ आ गई है, वहीं मध्य और उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश की फुहारें रुक गई हैं।

इस तरह से जून में जो बढ़त दिख रही थी, वह खत्म होती नजर आ रही है।

बहरहाल ज्यादातर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगस्त के पहले सप्ताह में उत्तर और मध्य भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की रिकवरी की उम्मीद है और इससे सामान्य से अधिक बारिश बहाल होने में मदद मिलेगी। इसका यह भी मतलब है कि



पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश के बाद हुए भूरखलन के बाद मंगलवार को धामी गांव में राहत व बचाव कार्य में जुटे जिला प्रशासन, एसआरडीएफ और एनआरडीएफ के कर्मचारी -पीटीआई

जुलाई महीने में भारत में बारिश मौसम विभाग के अनुमान की तलना में कम हो सकती है।

जून में दूसरा अनुमान जारी करते समय मौसम विभाग ने कहा था कि जुलाई में दीर्घावधि औसत (एलपीए) का 103 प्रतिशत बारिश होगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के हिसाब से जुलाई और अगस्त दो महत्त्वपूर्ण महीने हैं, क्योंकि इन्लहीं दो महीनों में सबसे ज्यादा बारिश होती है।

1 जुन से जुलाई के बीच देश के 685 जिलों में से करीब 32 प्रतिशत जिलों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, जबिक शेष जिलों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश हुई है।

जिन जिलों में सामान्य से कम

बारिश हुई है, उनमें से ज्यादातर जिले उत्तर प्रदेश (28), राजस्थान (24) और गुजरात (18) के हैं।

स्काईमेट वेदर के मौसम विभाग और जलवायु परिवर्तन वाइस प्रेसिडेंट महेश पालावत ने कहा, 'जुलाई में मॉनसून उम्मीद के कुछ विपरीत रहा है। अल नीनो निरपेक्ष बना रहा और वह ला नीना में परिवर्तित नहीं हुआ, जैसी कि उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अगस्त में बेहतर बारिश की संभावना है और उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों पंजाब. हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली आदि इलाकों में जोरदार बारिश के अनुमान हैं, जिससे स्थिति में सुधार होगी। सथ ही मध्य भारत के इलाकों में भी बेहतर बारिश के अनुमान हैं।'

बारिश का वितरण

■ बहुत बारिश : 12 प्रतिशत

ज्यादा बारिश : 18 प्रतिशत

कम बारिश: 32 प्रतिशत

बारिश नहीं : 0 प्रतिशत

सामान्य बारिश : 35 प्रतिशत

■ बहुत कम बारिश : 3 प्रतिशत

नोटः जिन जिलों में बारिश कम

हुई है, उनमें से ज्यादातर उत्तर

स्रोतः भारतीय मौसम विभाग

जुलाई महीने में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून में कमी से खरीफ फसलों की बुआई पर बहुत ज्यादा असर पडने की संभावना नहीं है

24 जुलाई तक खरीफ की फसलों की बुआई करीब 799.5 लाख हेक्टेयर थी, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 18.5 प्रतिशत से ज्यादा है, जिसमें दलहन और तिलहन की बुआई

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'मॉनसून में थोड़ा विराम होगा और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि बारिश रुकना सामान्य बात है।

बैंक प्रमुखों के साथ मोदी की बैठक आज

नई दिल्ली, 28 जुलाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्याधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कोविड-19 महामारी के बाद प्रधानमंत्री पहली बार वित्तीय संस्थानों के प्रमखों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। एक बैंक अधिकारी ने कहा कि यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी।

एक अन्य बैंक अधिकारी ने प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के नाम न दिए जाने की शर्त पर कहा, 'बैठक का एजेंडा अभी नहीं भेजा गया है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था में नकदी के प्रवाह, खासकर सूक्ष्म, मझोले व लघु उद्यमों (एमएसएमई) की स्थिति पर चर्चा करेंगे। साथ ही वह सरकार के कोविड-19 पैकेज की प्रगति के बारे में जानकारी लेंगे।

> वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू करने के लिए सरकार की ओर से की गई घोषणाएं वित्तीय संस्थानों के मदद से ही मूर्त रूप लेंगी और प्रधानमंत्री जानना चाहते हैं कि कर्जदाताओं की क्या राय है। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण के भी शामिल होने की उम्मीद है।

प्रमुख सरकारी बैंकों के अलावा कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों विचार करें।



नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

जैसे कोटक महिंद्रा आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक और इंडियन बैंक एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी बुधवार को होने वाली बैठक में भाग ले सकते हैं।

इसके पहले जून में सीतारमण ने सरकारी व निजी बैंको और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ अलग अलग बैठकें की थीं। वित्त मंत्री ने इस विषय पर चर्चा की थी कि 3 लाख करोड़ रुपये की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को एमएसएमई क्षेत्र में प्रभावी तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है। उन्होंने सरकारी बैंकों से यह भी अनुरोध किया था कि बेहतर ब्याज दर लगाएं।

सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कंपनियों से अनुरोध किया था कि वे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए बैंकों से इतर स्रोतों से धन जुटाने पर

रेलवे की माल ढुलाई में सुधार के संकेत

शाइन जैकब नई दिल्ली, 28 जुलाई

ने चालू वित्त वर्ष में पहली बार सोमवार को उच्च माल लदान दर्ज किया। इसने 27 जुलाई को 31.3 लाख टन माल का रखरखाव किया जो कि गत वित्त वर्ष के समान दिवस के 31.2 लाख टन से 0.3 फीसदी अधिक है। मालवहन खंड में यह मौजूदा उछाल महामारी के कारण पिछले पांच महीने से इस खंड में छाई सुस्ती के बाद आई है। दूसरी ओर चालू वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 27 जुलाई तक इसके लिए माल ट्रैफिक 32.269 करोड टन रहा जो पिछले वर्ष

आर्थिक सुधार के संकेत के तौर पर भारतीय रेलवे

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, 'यह आर्थिक सुधार का संकेत है। हमने इस मुकाम को हासिल करने के लिए इस संकट के समय में कई कदम उठाए हैं। इसमें इस दौरान अटके पड़े 200 बनियादी ढांचा के कामों को पूरा किया जाना शामिल है। इसके अलावा मालगाड़ी की औसत गति इस महीने 45 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई जो लॉकडाउन से पूर्व 23 किलोमीटर प्रति घंटे थी।'

की समान अवधि के मुकाबले 18 फीसदी कम है।

उन्होंने कहा कि रेलवे का लक्ष्य इस वर्ष पिछले

90 मिनट में डिलिवरी देगी फ्लिपकार्ट पीरजादा अबरार 'फ्लिपकार्ट क्विक' हाइपर लोकल सेवा

बेंगलूरु, 28 जुलाई

अगली बार अगर आप फ्लिपकार्ट पर ऐपल आईफोन का ऑर्डर करते हैं तो वह 90 मिनट में आपके हाथों में हो सकता है। वालमार्ट की ई-कॉमर्स कंपनी ने कहा है कि उसने हाइपर लोकल सर्विस 'फ्लिपकार्ट क्विक' सेवा पेश की है, जिससे ऐसा करना संभव हो सकेगा। कंपनी अपनी तकनीकी क्षमताओं और आपर्ति शृंखला की बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त कर ऐसा करने जा रही है।

पहले चरण में ग्राहक किराना

के सामान, ताजा डेयरी व मीट उत्पाद सहित 2,000 से ज्यादा उत्पादों की सेवाएं फ्लिपकार्ट क्विक से ले सकेंगे। अन्य श्रेणी में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज, स्टेशनरी के सामान और होम एक्सेसरीज शामिल हैं। ग्राहक अगले 90 मिनट में साल के मुकाबले 50 फीसदी अधिक लदान का है। 🖟 डिलिवरी या अपनी सुविधा के



 फ्लिपकार्ट क्विक में किराना दुकानों को ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस पर लाकर डिजिटलीकरण की व्यापक क्षमता

 स्विगी, ग्रुगल समर्थित डंजो. बिगबास्केट और ग्रोफर्स को सीधी टक्कर देने जा रही है फ्लिपकार्ट मिनट में किराना, डेयरी, मांस से लेकर मोबाइल तक की डिलिवरी करना

इसका मकसद ९०

 ग्राहक दिन में किसी वक्त ऑर्डर कर सकते हैं

 ग्राहक अपने ऑर्डर की डिलिवरी सुबह 6 बजे से मध्यरात्रि के बीच पा सकते हैं, जिसके लिए न्यूनतम डिलिवरी शुल्क 29 रुपये रखा गया है

 यह सेवा बेंगलूरु में शुरु की गई है और अगले कुछ महीनों में इसका 6 शहरों में विस्तार होगा

मुताबिक 2 घंटे में डिलिवरी का संदीप कर्वा ने एक साक्षात्कार में चाहता हूं तो मैं उसके लिए रैकेट विकल्प चुन सकेंगे।

2

3 9

1 3

9 8

6

मिनट में करने जा रहे हैं।' उन्होंने कहा कि फ्लिपकार्ट क्विक के साथ हम पडोस की किराना की दुकानों के नेटवर्क को अपने प्लेटफॉर्म से जोडने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 90 मिनट में

डिलिवरी देने का वक्त उद्योग में सबसे बेहतरीन और एमेजॉन सहित फ्लिपकार्ट के सभी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में सबसे तेज सेवा है। ग्राहक दिन में किसी भी समय ऑर्डर कर सकते हैं और वे 29 रुपये डिलिवरी शल्क देकर अपने ऑर्डर की डिलिवरी सुबह 6 बजे से मध्य रात्रि तक पा सकते हैं। हाइपर लोकल क्षमता को किसी एक इलाके में स्थानीय रूप से उपलब्ध उत्पादों और ग्राहकों को जोड़ने की क्षमता के रूप में माना जा सकता है।

कर्वा ने कहा, 'अगर मैं अपने बेटे के साथ टेबल टेनिस खेलना कहा, 'हम मोबाइल फोन, स्पीकर खरीद संकता हूं और बहुत जल्द फ्लिपकार्ट के वाइस प्रेसिडेंट और चार्जर की डिलिवरी 90 उसकी डिलिवरी पा सकता हं।

परिणाम संख्या 3804

Date : July 28, 2020 Place : Mumba **Company Secretary** MUTUALFUNDS

cms/investor-relations/share-buyback



By Order of the Board

For Just Dial Limited

Manan Udani

Haq, ek behtar zindagi ka.

NOTICE

UTI Mutual Fund

NOTICE is hereby given to all investors(s)/Unit holder(s) of UTI Mutual Fund ('Fund') that in accordance with Regulation 56 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI circular no. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 5, 2018 the 'Abridged Annual Report' of all Schemes for the year ended March 31,2020 has been hosted on our website viz. www.utimf.com and on website of AMFI viz. www.amfiindia.com

Investors can also request for a physical copy of the 'Abridged Annual Report' through any of the

- a. SMS: Send SMS to '5607090' from investor's registered mobile number. SMS format AAR <Folio> Example AAR '123456789' to 5607090.
- Telephone: Give a call to our Contact Centre on 18002661230 (Toll Free).
- Landline-022-62278000 Email: Send an email to 'UTI@KFINTECH.COM'
- Letter: Submit a request letter at any of UTI UFCs or OPAs quoting your folio no. List of UFCs available at www.utimf.com

Any queries/clarifications in this regard may addressed to

UTI Asset Management Company Ltd. CIN: U65991MH2002PLC137867 Investment Manager for UTI Mutual Fund UTI Tower, 'Gn' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051

Mumbai

July 28, 2020

Toll Free No.: 1800 266 1230

Website: www.utimf.com

For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/NISM certified UTI Mutual Fund Independent Financial Advisor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key Information Memorandum cum Application Form.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

खत्म हों मिनी लॉकडाउन की अनिष्टिचतताएं : सीआईआई

बीएस संवाददाता नई दिल्ली, 28 जुलाई

उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने मंगलवार को कहा कि 'मिनी लॉकडाउन' से जुड़ीअनिश्तितताएं खत्म की जानी चाहिए, जिससे कि कारोबार सुचारु रूप से चल सके। उद्योग संगठन ने कहा है कि शुरुआत में आर्थिक सुधार के बेहतर संकेत हैं, लेकिन इसे बरकरार रखना अहम है।

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजित बनर्जी ने कहा कि राज्य और जिलों की सीमाओं में आपूर्ति शृंखला सुचार रखने के लिए यह जरूरी है कि संक्रमण क्षेत्र सीमित इलाके तक होने चाहिए, न कि व्यापक इलाके को संक्रमण क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुधार के शुरुआती संकेतों को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि अनिश्चितताओं को कम किया जाए।

बीएस सूडोकू 3805 3 8 4 6 1

5

4

9

9

3

5

2 1

7

8

6 कैसे खेलें?

9 2 1 6 5 3 3 6 5 4 2 8 7 5 2 1 7 3 9 6 4 4 9 5 6 2 8 7 1 1 7 6 4 9 8 7 2 8 9 4 1 5 4 2 8 3 1 5 7 9 6 5 9 1 7 4 6 3 2 8 आसान

हर, रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ

तक की संख्या भरें।

राजस्थान

★★☆☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव महाराष्ट्र

बंद भाव रूपये प्रति क्विंटल मुंबई

लोकवन २३००/२५००, शरबती 2700/3000, थाना मिल 2000/2050, चावलः परमल वंड २३००/२४००,कोलम (कर्नाटक) ४०००/४५००, कोलम (नागपुर) ४४००/५२००, मंसूरी २३००/२३५०, दालः राजमां चित्रा 8800/8850, राजमां इथोपिया ७८००/८०००, मसर 5250/5275, चना ×, उड़द एसक्यू 6700/6725, अरहर लेमन 5500/5510

गुड़-चीनी : चीनीः एस ग्रेड ३३०२/३३८२, एम ग्रेंड ३४१०/३५८०,गुड़ (भेली)ः सांगली 4200/4500, नीरा बारामती 3800/4000 तेल-तिल्हन : खाद्य तेलः आरबीडी ८३००, मूंगफली तेल 12900, सोया रिफाइंड 8400, सोया रिफाइंड (टिन) १५५०/१५७५

किराना : जीराः (२० किलो) मीडियम 3200/3300, जीरा बेस्ट 3300/3400, अजवायन जामनगर १५५००/२५५००, धनियाः ईगल 7800/8500, ग्रीन 8800/9500, लालिमर्च गुंदूर 16000/17500, लालिमर्च एमपी 14500/15500, चाय (किलो): असम डस्ट ३१०/३५०, असम मामरी ३००/३४०,

2 3

9

8

5

सर्राफा (जीएसटी अतिरिक्त) : चांदी (किलो):हाजिर ६६०००, डिलीवरी ६६५००, कच्ची ६४०००, सोना (प्रति दस ग्राम)ः बार 53700, स्टैन्डर्ड 53500, (23 कैरेट) 52000, आभूषण (२२ कैरेट) ४९२००

अलौह-धातु : (किलो): कॉपर सी स्क्रैप ४६६, कॉपर एच स्क्रेप ४५९, कॉपर आरमेचर ४३९, कॉपर शीट कटिंग ×, कॉपर यूटेंशियल स्क्रै प ४१५, ब्रास शीट कटिंग ३१५, ब्रास यूटेनसिल स्क्रैप २९५, एल्यू. यूटेनिसल स्क्रेप 112, गन मैटल स्क्रैप 350, ब्रास हनी 295, कॉपर बिलेट्स 494, एल्यू. इंगट १४५, जिंक इंगट १८१, लेड इंगट 152, टिन इंगट 1413, निकिल कैथड १०४०, सीसी रॉड ५१३

कॉटन यार्न : (कि लो)ः कार्डेड वार्पः (10/1) 100/105, (20/1) 120/125, (40/1) 188/195, (60/1) 200/210

देशी घी: (प्रति लीटर): अमूल ४६०, विजया 470, पारस प्री. ×, कृष्णा ३६५, गोकुल ४६० सीमेंट : (५० किलो/५३ ग्रेड): अल्ट्राटैक ३५०, एसीसी ३४५, ग्रासिम ३४५, वासव दत्ता ×,

रसायन : (एफओआर मुंम्बई) टैक्स अतिरिक्तः कॉस्टिक सोडा फ्लैक (५० किलो) ×. सोडा एश (५० किलो) 1185/1200, टिटेनियम डाइऑक्साइड (किलो)ः टीटीके 150/155, चीन 140/145

मध्य प्रदेश

जीएसटी अतिरिक्तः किराना (किलो)ः सपारी 325/340, हल्दीः सांगली 90/100, निजामाबाद 82/85, कालीमिर्च 340/370, जीराः ऊंझा चालू १५२/१५६, मीडियम 156/166, बेस्ट 166/176, खसखस 825/1025, बड़ी इलायची 450/550, इलायची हरी 1700/2800, लोंग 480/560, दालचीनी 270/280, जायफल 500/520, जावित्री कोचीन १७००/१७५०, सिंगापुर 1850/1900, अजवायन मीडियम 140/160, धनिया खड़ा मीडियम 67/87, मेथीदाना 45/47, मेवेः काजू (240 नं.) 765/780, (320 वं.) 640/665, (300 वं.) 615/660, एसएडब्ल्यू ६३०/६७०, काजू-दुकड़ी 610/635, उड़ीसा (320 नं.) 640/665, (400 नं.) 615, (२४० नं.) ७४०/७६५, जेएच

660/670, बादामगिरीः कारमल 635, कैलि. 585/600, लम्बी सिनोरा ७०५, किशमिशः कंधारी 250/325, इंडियन 120/190, गोल्डन 190/200, जोधपुर

गेहूं १९००/१९१०, जो १२००/१२५०, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) ३८५०/३९००, ग्वारगम ६१००/६२००, बाजरा (गुजरात) १३२५/१३५०, बाजरा (जयपुर) १३२५/१३५०, चना 3750/3850, कांबली चना 4500/5500, मूंग 6100/6200, मोठ 6000/6100, रायडा 3600/3700, मूंगफली 5000/5500, सींगदाना ७०००/७५००, जीरा १४०००/१६५००, मगज तरबूज 12000/12200, जयपुर

दाल (जीएसटी अतिरिक्त)ः मूंग मोगर 7000/7100, मोटा 7300/7500, उड़द मोगर ७०००/७४००, मोटा ७२००/७३००, चौला मोगर ×, मोठ मोगर 6800/7000, मूंग दाल छिलका देशी ७०००/७८००, मलका 6000/6100, अरहर 7000/7500, मटर दाल मीडियम 6200/6300, चना दाल 4800/4900, एनएनएस

